



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29—अक्तूबर 5, 2011 (आश्विन 7, 1934)

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29—OCTOBER 5, 2011 (ASVINA 7, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400018, दिनांक 31 अगस्त 2012

सं. यूबीडी.सीओ.एमआईएस/1/16.43.020/2012-13--बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा अधिसूचित करता है कि तिरुवनईकोविल को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., 48, सन्नधी स्ट्रीट, तिरुवनईकोविल, त्रिची, तमिलनाडू-620005, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (cci) में परिभाषित किए गए अनुसार अब सहकारी बैंक नहीं रहा तथा अधिसूचना देने से पूर्व किए गए कार्यों तथा करने के लिए छोड़े हुए कार्यों को छोड़कर उक्त सहकारी बैंक पर अधिनियम के अंतर्गत लागू सभी प्रावधान इस अधिसूचना की तारीख से लागू नहीं होंगे।

ए. उदगाता

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2012

सं. एन-15/13/5/1/2012-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी

राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2012 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा गुजरात कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1963 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ गुजरात राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

“जिला सूरत के हजीरा, कवास, मोरा एवं भाटपोर, की संपूर्ण राजस्व/नगरपालिका/ग्राम पंचायत सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।”

एस. रविचन्द्रन

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 3 सितम्बर 2012

सं. एन-15/13/11/2/2012-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अक्तूबर, 2012 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ

पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

क्र. सं.	ग्राम का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
1.	जिओली	184	डेराबस्सी	मोहाली
2.	सितारपुर	154	डेराबस्सी	मोहाली
3.	जस्थाना खुर्द	221	डेराबस्सी	मोहाली
4.	बसोली	164	डेराबस्सी	मोहाली

एस. रविचन्द्रन  
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 4 सितम्बर 2012

सं. एन-15/13/15/4/2010-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2012 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा पश्चिम बंगाल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पश्चिम बंगाल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

क्र. सं.	राजस्व क्षेत्रों/मौजा के नाम	जे. एल. संख्या	नगर पालिकाओं/ग्राम पंचायत के नाम	जिलों के नाम
1.	शेरपुर माकिमपुर	63	इंग्लिश बाजार नगर पालिका	मालदा
2.	महेशमती	66	इंग्लिश बाजार नगर पालिका	मालदा
3.	इंग्लिश बाजार	67	इंग्लिश बाजार नगर पालिका	मालदा
4.	मकदुमपुर	68	इंग्लिश बाजार नगर पालिका	मालदा
5.	पिरोजपुर	69	इंग्लिश बाजार नगर पालिका	मालदा
6.	झलझलिया	72	इंग्लिश बाजार नगर पालिका	मालदा
7.	गाबगाछी	90	जदुपुर ग्राम पंचायत	मालदा

एस. रविचन्द्रन  
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 3 सितम्बर 2012

सं. बी-33(13)14/2009-स्था.-4--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में

अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम राजस्थान राज्य के क्षेत्रीय बोर्ड की स्थापना करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

क्र. सं.	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	विनियमाधीन
1	2	3	4
1.	माननीय राज्य मंत्री (श्रम)(स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर	अध्यक्ष	विनियम 10(1)(क)
2.	माननीय राज्य मंत्री (स्वास्थ्य), राजस्थान सरकार, जयपुर	उपाध्यक्ष	विनियम 10(1)(ख)
3.	श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर, श्रम भवन, शांति नगर, खातीपुरा रोड़, जयपुर	सदस्य	विनियम 10(1)(ग)
4.	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, (क.रा.बी. योजना), लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड़, जयपुर	पदेन सदस्य	विनियम 10(1)(घ)(i)
5.	राज्य चिकित्सा आयुक्त का.रा.बी. निगम, जयपुर	पदेन सदस्य	विनियम 10(1)(घ)(ii)
6.	श्री आनंद कालानी, दि इम्प्लायर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, 1662-बी, ए. पी. अपार्टमेंट, खरबुजा मंडी के समीप, मोती ढूंगरी रोड़, जयपुर-302004	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	विनियम 10(1)(ड)
7.	श्री दलजीत सिंह भंडारी, उपाध्यक्ष, राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, चैम्बर भवन, एम. आई. रोड़, जयपुर	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1)कां परंतुक
8.	श्री एस. के. गुप्ता, सचिव, राजस्थान टेक्सटाईल मिल्स एसोसिएशन, बी-1, नवलखा अपार्टमेंट, भारत माता पथ, जमना लाल बजाज मार्ग, सी स्कीम, जयपुर, मो. 9829347604	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1)का परंतुक

1	2	3	4	1	2	3	4
9.	श्री श्याम लाल माथुर, संयुक्त सचिव, नेशनल मजदूर कांग्रेस (इंटक), बी-चौधरी श्रमिक केन्द्र, राजस्थान, 130, कैलाशपुरी, शंघी फार्म के सामने टॉक रोड, जयपुर, मो. 9414718079	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	विनियम 10(1)(ड)	11.	श्री रविन्दर शुक्ला, महासचिव, इंडियन ट्रेड यूनियन केन्द्र, राजस्थान स्टेट कमेटी श्रमिक एकता केन्द्र, एस.डी. 137, शांति नगर, जयपुर-302006 मो. 9413340203	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1)का परंतुक
10.	श्री डी. के. छंगनी, महासचिव, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक, स्वामी कुमारानंद भवन, हथोड़ी किले के पास, जयपुर-302002	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1)का परंतुक	12.	प्रधान सचिव, राजस्थान सरकार, श्रम एवं योजना विभाग, सचिवालय जयपुर	राज्य में रह रहे क.रा.बी. निगम 10(1)(छ) के पदेन सदस्य	विनियम
				13.	क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय क.रा.बी. निगम जयपुर (राजस्थान)	सदस्य सचिव	विनियम 10(3)

एस. के. शाह  
संयुक्त निदेशक

चेन्नै-600034, दिनांक 21 अगस्त 2012

सं. 51/वी./34/11/07/एल.सी./आर.सी./समन्वय--क.रा.बी. (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10 क(1) के साथ पठित, क.रा.बी. अधिनियम 1948 की धारा 25 के अनुसरण में क्षेत्रीय बोर्ड, क.रा.बी. निगम, तमिलनाडु के अध्यक्ष ने अधिसूचना सं. 51-वी-34-11-90-समन्वय दिनांक 18.03.2000 का अतिक्रमण करते हुए अधिसूचित किया है कि नीचे उल्लिखित जिलों की स्थानीय समिति में, अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी, निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :--

कडलूर	चेन्नै
अध्यक्ष	अध्यक्ष
(विनियम 10क 1(क) के अधीन)	(विनियम 10क 1(क) के अधीन)
क्षेत्रीय प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, क.रा.बी. योजना, सेलम	क्षेत्रीय प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, क.रा.बी. योजना, चेन्नै
सदस्य	सदस्य
1. (विनियम 10क 1(ख) के अधीन)	1. (विनियम 10क 1(ख) के अधीन)
कारखानों के उप मुख्य निरीक्षक, कडलूर	कारखानों के उप मुख्य निरीक्षक, प्रभाग। चेन्नै
2. (विनियम 10क 1(ग) के अधीन)	2. (विनियम 10क 1(ग) के अधीन)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क.रा.बी. औषधालय, कडलूर	मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क.रा.बी. अस्पताल अयनावरम
नियोजकों के प्रतिनिधि	नियोजकों के प्रतिनिधि
(विनियम 10क 1(घ) के अधीन)	(विनियम 10क 1(घ) के अधीन)
श्री आर. रामकृष्णन, वरिष्ठ अधिकारी मानव संसाधन विकास एवं प्रशासन, टी.ए.एन.एफ.ए.सी. उद्योग लिमिटेड, 14, सिपकॉट औद्योगिक परिसर, कडलूर-607005	श्री एन. एन. राघवाचारी, वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन, लुकोस टी.वी.एस. लिमिटेड, पाडि, चेन्नै-600050
श्री बी. रतिनकुमार, इंटरनेशनल बेकरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 14 के.एम. पाण्डी-दिण्डिवणम, टी. सी. बालंम-605111	श्री ए. शन्मुगवेलयुधन, स्वामी, मैसर्स आई.पी.एल. प्रोडक्ट्स, के-2, तिरु वी.का. इंडस्ट्रीयल एस्टेट, गिण्डि, चेन्नै-600032

कडलूर	चेन्नै
कर्मचारियों के प्रतिनिधि (विनियम 10क 1(ड) के अधीन)	कर्मचारियों के प्रतिनिधि (विनियम 10क 1(ड) के अधीन)
श्री के. आर. बालकृष्णन, जिला सचिव, पूरब कडलूर जिला के अन्ना तोषिल संगम, 58, दुरैसामी नगर, कडलूर-1	श्री ऐ. ऐ. अर्जुनन (ए.टी.पी.) जिला सचिव, डी-3, आशीर्वाद अपार्टमेंट, 5/11, रामन स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नै-600017
श्री एन. अर्पुतवेल, जिला सचिव, उत्तर विषुपुरम जिला के अन्ना तोषिल संगम, 62/20, मुत्तुमारियम्मन कोविल स्ट्रीट, पावर हाऊस रोड, विषुपुरम-605602	ताडि मा रासु, अन्ना तोषिल संग पेरवै के राज्य अध्यक्ष, सं. 9/21, प्रथम मुख्य स्ट्रीट, यूनाइटेड इंडिया नगर, अयनावरम, चेन्नै-600023
सदस्य सचिव (विनियम 10क 1(च) के अधीन)	सदस्य सचिव (विनियम 10क 1(च) के अधीन)
प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी. निगम, नेल्लिकुप्पम	उप निदेशक (हितलाभ) क.रा.बी. निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै-600034

के. पद्मजा नंबियार  
क्षेत्रीय निदेशक/पदेन सदस्य सचिव  
क.रा.बी. निगम क्षेत्रीय बोर्ड, तमिलनाडु

अहमदाबाद-380014, दिनांक 5 सितम्बर 2012

सं. 37/पीटीएमआर/जी.आर.पी./खोखरा/एसएमसी/12--कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.05.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्ण हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, (गुजरात) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा मूल प्रमाणपत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :-

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. गिरीशभाई आर. पटेल पी.टी.एम.आर.	03.10.2012 से 02.10.2013	खोखरा, अहमदाबाद, गुजरात

डॉ. एच. पी. सिंह  
राज्य चिकित्सा आयुक्त

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2011

सं. जा.मि.इ./आर.ओ./एल एंड ऑर्डर/2011--सभी संबंधितों की सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि भारत की राष्ट्रपति ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलाध्यक्ष की हैसियत से "मौलाना मोहम्मद अली जौहर तीसरी दुनिया अध्ययन अकादमी" का नाम बदलकर "मौलाना मोहम्मद अली जौहर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन अकादमी" रखने के लिए "परिनियम 22-ए-केन्द्र" में संशोधन हेतु अपनी सहमति प्रदान की है (जैसा कि अनुलग्नक में दर्शाया गया है) तथा इसके परिणामस्वरूप मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) ने अपने पत्र सं. एफ.6-8/2011-डेस्क (यू), दिनांक 01.07.2011 द्वारा सूचित किया है।

(नोट : परिनियम 22-ए का संशोधित भाग दिए गए अनुलग्नक में चिह्नंकित कर दिया गया है)।

प्रो. एस. एम. साजिद  
कुलसचिव

अनुलग्नक

## परिनियम 22-ए-केन्द्र में संशोधन

## मौजूदा परिनियम 22-ए-केन्द्र

## प्रस्तावित परिनियम 22-ए-केन्द्र

1. परिनियम 22 के अनुपूरक में, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित केन्द्र भी होंगे, अर्थात् :

1. परिनियम 22 के अनुपूरक में, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित केन्द्र भी होंगे, अर्थात् :

- (i) डॉ. जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज;
- (ii) एफ.टी.के.-सेन्टर फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी;
- (iii) मौलाना मोहम्मद अली जौहर तीसरी दुनिया अध्ययन अकादमी;
- (iv) सेन्टर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग;
- (v) प्रबंधन अध्ययन केन्द्र;
- (vi) नेल्सन मंडेला सेन्टर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्यूशन;
- (vii) सेन्टर फॉर जवाहर लाल नेहरू स्टडीज;
- (viii) धर्म तथा सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन केन्द्र;
- (ix) पश्चिमी एशियाई अध्ययन केन्द्र;
- (x) डॉ. के. आर. नारायणन सेन्टर फॉर दलित एण्ड माइनॉरिटीज स्टडीज;
- (xi) सेन्टर फॉर स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज;
- (xii) सेन्टर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन साइंसेज;
- (xiii) व्यावसायिक विकास, उर्दू माध्यम शिक्षक केन्द्र;
- (xiv) ऐसे अन्य केन्द्र जो इन परिनियमों द्वारा निर्धारित किए गए हैं;

- (i) .....
- (ii) .....
- (iii) मौलाना मोहम्मद अली जौहर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन अकादमी;
- (iv) .....
- (v) .....
- (vi) .....
- (vii) .....
- (viii) .....
- (ix) .....
- (x) .....
- (xi) .....
- (xii) .....
- (xiii) .....
- (xiv) .....

2. अधिनियम एवं इन परिनियमों के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक केन्द्र प्रबंधन बोर्ड के अंतर्गत कार्य करेगा, जिसकी संरचना, शक्तियां तथा कार्य संबंधित केन्द्रों के अध्यादेशों में यथानिर्धारित के अनुसार होंगे।

2. ....  
.....  
.....

3. प्रत्येक केन्द्र का एक निदेशक होगा, जिसकी नियुक्ति संबंधित परिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी; तथा जो अध्यादेशों द्वारा यथानिर्धारित शक्तियों का लाभ उठा पाएंगे तथा यथानिर्धारित कार्य करेंगे।

3. ....  
.....  
.....

दिनांक 28 जून 2012

सं. जा.मि.इ./आर.ओ./एल एंड ऑर्ड/2012--सभी संबंधितों की सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि भारत की राष्ट्रपति ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलाध्यक्ष की हैसियत से दो नए केन्द्रों अर्थात् “उत्तर पूर्व अध्ययन एवं नीति अनुसंधान केन्द्र” तथा “अतिसूक्ष्म विज्ञान एवं अतिसूक्ष्म प्रौद्योगिकी” के निर्माण के लिए अपनी सहमति प्रदान की है तथा इसके परिणामस्वरूप परिनियम 22-ए अनुशीर्षक “केन्द्र” के खण्ड 1 में किए गए संशोधनों/परिवर्धनों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने अपने क्रमशः पत्र सं. एफ-6-3/2012-डेस्क (यू), दिनांक 19 जून, 2012 एवं सं. एफ-6-4/2012-डेस्क (यू), दिनांक 19 जून, 2012 द्वारा सूचित किया है।

यथाअनुमोदित परिनियम 22-ए का संशोधित खण्ड (1) दिए गए अनुलग्नक के अनुसार माना जाएगा।

एस. एम. साजिद  
कुलसचिव

अनुलग्नक

मा.सं.वि.मं. सं. एफ-6-3/2012-डेस्क (यू) तथा सं. एफ-6-4/2012-डेस्क (यू)  
दिनांक 19 जून, 2012 द्वारा यथाअनुमोदित परिनियम 22-ए अनुशीर्षक “केन्द्र” का

#### संशोधित खंड (1)

1. परिनियम 22 के अनुपूरक में, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित केन्द्र भी होंगे, अर्थात् :

- (i) डॉ. जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज;
- (ii) एफ.टी.के.--सेन्टर फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी;
- (iii) मौलाना मोहम्मद अली जौहर तीसरी दुनिया अध्ययन अकादमी;
- (iv) सेन्टर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग;
- (v) प्रबंधन अध्ययन केन्द्र;
- (vi) नेल्सन मन्डेला सेन्टर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्यूशन;
- (vii) सेन्टर फॉर जवाहर लाल नेहरू स्टडीज;
- (viii) धर्म तथा सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन केन्द्र;
- (ix) पश्चिमी एशियाई अध्ययन केन्द्र;
- (x) डॉ. के. आर. नारायणन सेन्टर फॉर दलित एंड माइनॉरिटीज स्टडीज;
- (xi) सेन्टर फॉर स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज;
- (xii) सेन्टर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन साइंसेज;
- (xiii) व्यावसायिक विकास, उर्दू माध्यम शिक्षक केन्द्र;
- (xiv) उत्तर पूर्व अध्ययन एवं नीति अनुसंधान केन्द्र;
- (xv) अतिसूक्ष्म विज्ञान एवं अतिसूक्ष्म प्रौद्योगिकी;
- (xvi) ऐसे अन्य केन्द्र जो इन परिनियमों द्वारा निर्धारित किए गए हैं;

2. अधिनियम एवं इन परिनियमों के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक केन्द्र प्रबंधन बोर्ड के अंतर्गत कार्य करेगा, जिसकी संरचना, शक्तियां तथा कार्य संबंधित केन्द्रों के अध्यादेशों में यथानिर्धारित के अनुसार होंगे।
3. प्रत्येक केन्द्र का एक निदेशक होगा, जिसकी नियुक्ति संबंधित परिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी; तथा जो अध्यादेशों द्वारा यथानिर्धारित शक्तियों का लाभ उठा पाएंगे तथा यथानिर्धारित कार्य करेंगे।

## RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400018, the 31st August 2012

UBD.CO.MIS/1/16.43.020/2012-13—In exercise of the powers conferred under the sub-section (2) of Section 36A of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 56 of the said Act, the Reserve Bank of India hereby notifies that Thiruvanaikovil Co-operative Urban Bank Ltd., 48, Sannadhi Street, Thiruvanaikovil, Trichy, Tamil Nadu-620005 has ceased to be a 'co-operative bank' as defined in Section 5 (cci) of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 56 of the said Act and all the provisions of the said Act applicable to the said co-operative bank shall cease to apply to it from the date of publication of this Notification, except in respect of the things done or omitted to be done prior to this Notification.

A. UDGATA  
Chief General Manager-in-Charge

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 27th August 2012

No. N-15/13/5/1/2012-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 2012 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Gujarat Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1963 shall be extended to the families of insured persons in the following areas in the State of Gujarat namely :—

"Entire areas falling in Revenue/Municipal/Gram Panchayat limits of Hazira, Kawas, Mora and Bhatpore, District Surat."

S. RAVICHANDRAN  
Jt. Dir. (P&D)

The 3rd September 2012

No. N-15/13/11/2/2012-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st October, 2012 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families

of insured persons in the following areas in the State of Punjab, namely :—

Sl. No.	Name of the Village	Hadbast No.	Tehsil	District
1.	Jeoli	184	Derabassi	Mohali
2.	Sitapur	154	Derabassi	Mohali
3.	Jasthana Khurd	221	Derabassi	Mohali
4.	Basoli	164	Derabassi	Mohali

S. RAVICHANDRAN  
Jt. Dir. (P&D)

The 4th September 2012

No. N-15/13/15/4/2010-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 2012 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the West Bengal Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following areas in the State of West Bengal, namely :—

Sl. No.	Name of Mouza	J. L. No.	Name of Municipality/ Gram Panchayat	Name of District
1.	Sherpur Makimpur	63	English Bazar Municipality	Malda
2.	Maheshmati	66	English Bazar Municipality	Malda
3.	English Bazar	67	English Bazar Municipality	Malda
4.	Makdumpur	68	English Bazar Municipality	Malda
5.	Pirojpur	69	English Bazar Municipality	Malda
6.	Jhaljhalia	72	English Bazar Municipality	Malda
7.	Gabgachi	90	Jadupur Gram Panchayat	Malda

S. RAVICHANDRAN  
Jt. Dir. (P&D)

New Delhi-110002, the 3rd September 2012

V-33(13)14/2009-E.IV—In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the ESI (General) Regulation, 1950, the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for Rajasthan State which shall consist of the following members, namely :—

Sl. No.	Name of Representative	Designation	Under Regulation
1	2	3	4
1.	Hon'ble Minister of State (Labour) (Independent Charge), Govt. of Rajasthan, Jaipur	Chairman	Reg. 10(1)(a)
2.	Hon'ble Minister of State (Health) Govt. of Rajasthan, Jaipur	Vice-Chairman	Reg. 10(1)(b)
3.	Labour Commissioner, Rajasthan, Jaipur Sharam Bhawan, Shanti Nagar, Khatipura Road, Jaipur	Member	Reg. 10(1)(c)
4.	Director, Medical & Health Services, (ESI Scheme) Laxmi Nagar, Ajmer Road, Jaipur	Ex-Officio Member	Reg. 10(1)(d)(i)
5.	State Medical Commissioner ESI Corporation, Jaipur	Ex-Officio Member	Reg. 10(1)(d)(ii)
6.	Sh. Anand Kalani, The Employers' Association of Rajasthan, 1662-B, A.P. Apartment, Near Kharbuja Mandi, Moti Doongri Road, Jaipur-302004.	Employers' Representative	Reg. 10(1)(e)
7.	Sh. Daljit Singh Bhandari, Vice Chairman, Rajasthan Chamber of Commerce & Industries, Chamber Bhawan, M. I. Road, Jaipur.	Employers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
8.	Sh. S. K. Gupta, Secretary, Rajasthan Textile Mills Association, B-1, Nawalakha Apartment, Bharat Mata Path, Jamana Lal Bajaj Marg, 'C-Scheme, Jaipur, M-9829347604	Employers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
9.	Sh. Shyam Lal Mathur, Joint Secretary, National Majdoor Congress (INTUC), B-Choudhary Sharmik Kendra, Rajasthan, 130, Kailash Puri Opposite Shanghi Farm, Tonk Road, Jaipur M-9414718079	Employees' Representative	Reg. 10(1)(e)
10.	Sh. D. K. Chhangani, General Secretary All India Trade Union Congress, AITUC, Swami Kumaranand Bhawan, Near Hathroi Fort, Jaipur-302002.	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
11.	Sh. Ravinder Shukla, General Secretary, Indian Trade Union Kendra, Rajasthan State Committee Shramik Ekta Kendra, S. D. 137, Shanti Nagar Jaipur-302006. M-9413340203.	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)

1	2	3	4
12.	The Principal Secretary Govt. of Rajasthan Labour and Planning Department, Sachivalya Jaipur	Ex-officio Member of ESIC residing in the State	Reg. 10(1)(f)
13.	Regional Director, Regional Office ESI Corporation Jaipur (Rajasthan)	Member Secretary	Reg. 10(3)

S. K. SHAH  
Jt. Dir.

Chennai-600034, the 21st August 2012

No. 51/V/34/11/07/L.C./RC./CO-ORDN—In pursuance of Section 25 of the ESI Act 1948, read with Regulation 10A(1) of the ESI (General) Regulations 1950, the Chairman Regional Board, ESI Corporation, Tamil Nadu, in supersession of the notification No. 51-V-34-11-90-Cdn dated 18.03.2000, hereby notifies that the Local Committee of the undermentioned Districts shall, with effect from the date of publication of notification in the Official Gazette, consist of the following members, namely :—

Cuddalore	Chennai
Chairman	Chairman
[Under Regulation 10A 1(a)]	[Under Regulation 10A 1(a)]
Regional Administrative Medical Officer, ESI Scheme, Salem	Regional Administrative Medical Officer, Officer, ESI Scheme, Chennai
Members :—	Members :—
(i) Under Regulation 10A 1(b)	(i) Under Regulation 10A 1(b)
Deputy Chief Inspector of Factories, Cuddalore	Deputy Chief Inspector of Factories, Division I Chennai
(ii) Under Regulation 10A 1(c)	(ii) Under Regulation 10A 1(c)
Chief Medical Officer Incharge, ESI Dispensary Cuddalore	Medical Officer Incharge, ESI Hospital Ayyanavaram,
Employers' Representative	Employers' Representative
[Under Regulation 10A 1(d)]	[Under Regulation 10A 1(d)]
Thiru R. Ramakrishnan, Senior Officer— Human Resource Development & Administration, TANFAC Industries Ltd., 14, SIPCOT Industrial Complex, Cuddalore-607005	Thiru N. N. Raghavachari, Senior Manager—Human Resource, Lucas TVS Limited, Padi, Chennai-600050
Thiru V. Rathinakumar, International Bakery Products Ltd., 14 K. M. Pondy-Dindivanam T.C. Balam-605111	Thiru A. Shanmugavelayuthan, Proprietor, M/s. IPL Products, K-2, Thiru Vi Ka Industrial Estate Guindy, Chennai-600032
Employees' Representative	Employees' Representative
[Under Regulation 10A 1(e)]	[Under Regulation 10A 1(e)]
Thiru K. R. Balakrishnan, District Secretary, Anna Thozhil Sangam of East Cuddalore District,	Thiru A. A. Arjunan (ATP) District Secretary, D-3, Ashirvad Apartments, 5/11, Raman Street,

Cuddalore	Chennai
58, Duraisamy Nagar, Cuddalore-1	T. Nagar, Chennai-600017.
Thiru N. Arputhavel, District Secretary, Anna Thozhil Sangam of North Villupuram District, 62/20, Muthumariamman Koil Street, Power House Road, Villupuram-605602	Thadi Ma Rasu, State President for Anna Thozhil Sanga Paravai, No. 9/21, 1st Main Street, United India Nagar, Ayyanavaram, Chennai-600023
Member Secretary [Under Regulation 10A 1(f)]	Member Secretary [Under Regulation 10A 1(f)]
Manager, Branch Office, ESI Corporation, Nellikuppam	Deputy Director (Benefits) ESI Corporation, Regional Office, Chennai-600034

K. PADMAJANAMBIAR  
Regional Director/Ex-Officio Member Secy.  
ESIC Regional Board, Tamil Nadu

Ahmedabad-380014, the 5th September 2012

No. 37. PTMR.GRP.Khokhra.SMC.12—In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the power of Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to me vide Director General order on File No. Pt. file U.13/12/13/2005-PTMR (Med.I) dated 04.08.2008, I hereby authorised the following Doctor(s) to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with norms with effect from the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas allocated by the undersigned for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Period	Name of Centre/Place District/State
Dr. Girishbhai R. Patel Part Time Medical Referee	03.10.2012 to 02.10.2013	Khokhra, Ahmedabad Gujarat

H. P. SINGH  
State Medical Commissioner

JAMIA MILLIA ISLAMIA

New Delhi, the 12th July 2011

No.JMI/R.O./L&Ord./2011—This is to notify for information of all the concerned that the President of India in her capacity as the Visitor of Jamia Millia Islamia has been pleased to accord her assent for amendment in "Statute 22-A-Centres" by changing the name "Maulana Mohammad Ali Jauhar Academy of Third World Studies" to "Maulana Mohammad Ali Jauhar Academy of International Studies" (as shown in the Annexure) as conveyed by the Human Resource Development (Department of Higher Education) vide their letter No. F. 6-8/2011-Desk(U) dated 01.07.2011.

(Note:—The ammendment part of Statute 22-A as shown in Annexure has been highlighted).

S. M. SAJID  
Registrar

## ANNEXURE

## Amendment in Statute 22-A, CENTRES

## Existing Statute 22-A, CENTRES

1. Supplement to Statute 22, the University shall also have the following Centres, namely :

- (i) Dr. Zakir Husain Institute of Islamic Studies;
- (ii) FTK-Centre for Information Technology;
- (iii) Maulana Mohammad Ali Jauhar Academy of Third World Studies;
- (iv) Centre for Distance and Open Learning;
- (v) Centre for Management Studies;
- (vi) Nelson Mandela Centre for Peace & Conflict Resolution;
- (vii) Centre for Jawaharlal Nehru Studies;
- (viii) Centre for Comparative Religions and Civilization;
- (ix) Centre for West Asian Studies;
- (x) Dr. K. R. Narayanan Centre for Dalit and Minorities Studies;
- (xi) Centre for Spanish & Latin American Studies;
- (xii) Centre for Physiotherapy and Rehabilitation Sciences;
- (xiii) Academy of Professional Development of Urdu Medium Teachers, AND
- (xiv) Such other Centre(s) as may be prescribed by these Statutes.

2. Subject to the provisions of the Act and these Statutes, each Centre shall function under a Board of Management, the composition, powers and functions of which shall be as prescribed in the Ordinances of the respective Centres.

3. Each Centre shall have a Director, who shall be appointed in accordance with the provisions of the relevant Statute; and shall enjoy such powers and perform such functions as prescribed by the Ordinances.

## Proposed Statute 22-A, CENTRES

1. Supplement to Statute 22, the University shall also have the following Centres, namely :

- (i) .....
- (ii) .....
- (iii) Maulana Mohammad Ali Jauhar Academy of International Studies;
- (iv) .....
- (v) .....
- (vi) .....
- (vii) .....
- (viii) .....
- (ix) .....
- (x) .....
- (xi) .....
- (xii) .....
- (xiii) .....
- (xiv) .....
2. ....
- .....
- .....
- .....
- .....
3. ....
- .....
- .....
- .....
- .....

The 28th June 2012

No. JMI/R.O./L&Ord./2012—This is to notify for the information of all the concerned that the President of India in her capacity as the Visitor of Jamia Millia Islamia has been pleased to accord her assent for creation of two new Centres, namely, "Centre for North East Studies and Policy Research" and the "Centre for Nanoscience and Nanotechnology" and consequential amendments/additions to Clause 1 of Statute 22-A Captioned "Centres", as conveyed by the Ministry of Human Resource Development, Deptt. of Higher Education vide their letters No. F. 6-3/2012-Desk(U) dated June 19, 2012 and No. F. 6-4/2012-Desk(U) dated June 19, 2012 respectively.

The amended Clause (1) of Statute 22-A as approved would be read as shown in the Annexure.

S. M. SAJID  
Registrar

## ANNEXURE

Amended Clause (1) of Statute 22-A captioned "Centres" as approved vide MHRD No. F.6-3/2012-Desk(U) and No. F. 6-4/2012-Desk(U) dated June 19, 2012

1. Supplement to Statute 22, the University shall also have the following Centres, namely :

- (i) Dr. Zakir Husain Institute of Islamic Studies;
- (ii) FTK-Centre for Information Technology;
- (iii) Maulana Mohammad Ali Jauhar Academy of Third World Studies;
- (iv) Centre for Distance and Open Learning;
- (v) Centre for Management Studies;
- (vi) Nelson Mandela Centre for Peace & Conflict Resolution;
- (vii) Centre for Jawaharlal Nehru Studies;
- (viii) Centre for Comparative Religions and Civilization;
- (ix) Centre for West Asian Studies;
- (x) Dr. K. R. Narayanan Centre for Dalit and Minorities Studies;
- (xi) Centre for Spanish & Latin American Studies;
- (xii) Centre for Physiotherapy and Rehabilitation Sciences;
- (xiii) Academy of Professional Development of Urdu Medium Teachers;
- (xiv) Centre for North East Studies and Policy Research;
- (xv) Centre for Nanoscience and Nanotechnology, AND
- (xvi) Such other Centre(s) as may be prescribed by these Studies.

2. Subject to the provisions of the Act and these Statutes, each Centre shall function under a Board of Management, the composition, powers and functions of which shall be as prescribed in the Ordinances of the respective Centres.

3. Each Centre shall have a Director, who shall be appointed in accordance with the provisions of the relevant Statute; and shall enjoy such powers and perform such functions as prescribed by the Ordinances.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012